



INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA
PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



क्रम सं/SL No :011221429



पेटेंट क्रायलिय, भारत सरकार | The Patent Office, Government Of India

पेटेंट प्रमाण पत्र | Patent Certificate

(पेटेंट नियमावली का नियम 74) | (Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. 567364
आवेदन सं. / Application No. 202211022551

फाइल करने की तारीख / Date of Filing 16/04/2022

पेटेंटी / Patentee INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY JODHPUR

आविष्कारकों का नाम /Name of Inventor(s) 1.Dr. Rohan D. Erande 2.Dr. Akhilesh Kumar 3.Mr. Ghanshyam Mali 4.Dr. Himanshu Arora 5.Dr. Amit Rajput

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकृति [(L2)VIVO](CLO4) FOR CATALYTIC ORGANIC TRANSFORMATIONS AND SYNTHESIS THEREOF नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपर्युक्तों के अनुसार आज तारीख अप्रैल 2022 के सोलहवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled [(L2)VIVO](CLO4) FOR CATALYTIC ORGANIC TRANSFORMATIONS AND SYNTHESIS THEREOF as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 16th day of April 2022 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.

अनुदान की तारीख
Date of Grant

11/06/2025

पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patents

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, अप्रैल 2024 के सोलहवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 16th day of April 2024 and on the same day

In every year thereafter.



अन्तार्गत परिवर्तन
अन्तार्गत परिवर्तन

(54) Title of the invention : [(L2)VIVO](ClO₄) FOR CATALYTIC ORGANIC TRANSFORMATIONS AND SYNTHESIS THEREOF

(51) International classification : C07C0029170000, C07D0401140000, C07F0015000000, C07C0045000000, C07D0319080000

(86) International Application No : NA

Filing Date : NA

(87) International Publication No : NA

(61) Patent of Addition to Application Number : NA

Filing Date : NA

(62) Divisional to Application Number : NA

Filing Date : NA

(71) Name of Applicant :

1) INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY JODHPUR

Address of Applicant : N H 62, Nagaur Road, Karwar, Rajasthan, INDIA -----

Name of Applicant : NA

Address of Applicant : NA

(72) Name of Inventor :

1) Dr. Rohan D. Erande

Address of Applicant : Department of Chemistry, Indian Institute of Technology Jodhpur, N H 62, Nagaur Road, Karwar, Rajasthan, INDIA 342030 -----

2) Dr. Akhilesh Kumar

Address of Applicant : Department of Chemistry, Axis Institute of Technology and Management, Kanpur Uttar Pradesh INDIA 209402 -----

3) Mr. Ghanshyam Mali

Address of Applicant : Department of Chemistry, Indian Institute of Technology Jodhpur, N H 62, Nagaur Road, Karwar, Rajasthan, INDIA 342030 -----

4) Dr. Himanshu Arora

Address of Applicant : School of Engineering and Science, G. D. Goenka University, Sohna Gurugram Haryana INDIA 122103 -----

5) Dr. Amit Rajput

Address of Applicant : Chemistry Department, J. C. Bose University of Science & Technology, 6, Mathura Rd, Sector 6 Faridabad Haryana INDIA 121006 -----

(57) Abstract :

V-complex catalyst is provided together with processes of organic transformations by involving the same based on employing H₂O₂ as stoichiometric oxidant, such as oxidation of aldehyde to ester and α-β unsaturated esters to ester catalyzed by said V-complex [(L2)VIVO](ClO₄) catalyst as disclosed herein. The synthesized compounds/analogue of the instant invention enabling said catalytic processes described herein are represented by the general formula (I) wherein R moiety is derived from alcohols including methanol, ethanol, isopropanol, isobutanol, propargylic alcohol and X₁-X₅ are same or different including -CH₃, -CH₂CH₃, -OCH₃, -O-CH₂CH₃ to be read in relation to a scheme below:

No. of Pages : 25 No. of Claims : 10



26422

The Patent Office Journal No. 17/2022 Dated 29/04/2022